

## जलवायु परविरतन और संक्रामक रोग

### प्रलिमिस के लिये:

संक्रामक रोग, संक्रामक रोग लकिए

### मेन्स के लिये:

रपिरेट की मुख्य वशिष्टताएँ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट' (Science of the Total Environment) जरनल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परविरतन के वभिन्न कारक कुल संक्रामक रोगों के 9-18% मामलों के लिये जामिमेदार है।

- मानवजननि गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परविरतन पछिले कई वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ को चुनौती दे सकता है, वशिष्ट रूप से भारत जैसे देश में जो वशिव में जलवायु-संवेदनशील देशों की सूची में उच्च स्थान पर है।

### प्रमुख बातें

#### • रपिरेट की मुख्य वशिष्टताएँ:

- बच्चों में भेद्यता: वशिव स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परविरतन के कारण सबसे अधिक बीमारी का भार बच्चों को उठाना पड़ता है, जिसमें सबसे गरीब लोग अनुपातहीन रूप से प्रभावित होते हैं।
- बच्चों से जुड़ा उच्च जोखिम शारीरिक भेद्यता के संयोजन से संबंधित के होता है।
- प्रभावित करने वाले कारक: तापमान, आरद्रता, वर्षा, सौर वकिरिण और हवा की गतिजैसे जलवायु पैरामीटर महत्वपूर्ण रूप से संक्रामक, पेट और आँत से जुड़ी बीमारियाँ (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल), शवसन रोगों, वेक्टर जननि रोगों और तवचा रोगों से जुड़े हुए हैं।
- प्रभाव: सामाजिक-आरथिक स्थिति और चाइल्ड एंथ्रोपोमेट्री (मानव शरीर के माप और अनुपात का अध्ययन) ने स्टंटंगि, वेस्टंगि तथा कम वजन की स्थिति से पीड़ित बच्चों के उच्च अनुपात के साथ जलवायु-रोग संबंध को संशोधित किया है।

#### • जलवायु परविरतन और संक्रामक रोग लकिए का उदाहरण:

- मलेरिया सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये बड़ी चिंता का विषय है और लंबे समय तक जलवायु परविरतन के प्रति संवेदनशील वेक्टर जननि रोग होने की संभावना है।
  - अत्यधिक स्थानिक क्षेत्रों में मलेरिया मौसमी रूप से भनिन होता है उदाहरण के लिये भारत में मलेरिया और जलवायु घटनाओं के बीच की कड़ी का अध्ययन लंबे समय से किया जा रहा है।
  - पछिली शताब्दी की शुरुआत में नहर से सचित पंजाब क्षेत्र समय-समय पर मलेरिया महामारी से प्रभावित हुआ।
  - अत्यधिक मानसून वर्षा और उच्च आरद्रता वाले क्षेत्रों की पहचान एक प्रमुख प्रभाव के रूप में की गई थी, जो मच्छरों के प्रजनन और अस्तित्व को बढ़ाती है।
  - हाल के विश्लेषणों से पता चला है कि अल नीनो घटना के बाद वर्ष में मलेरिया महामारी का जोखिम लगभग पाँच गुना बढ़ जाता है।

Environmental changes	Example diseases	Pathway of effect
Dams, canals, irrigation	Schistosomiasis	▲ Snail host habitat, human contact
	Malaria	▲ Breeding sites for mosquitoes
	Helminthiasis	▲ Larval contact due to moist soil
	River blindness	▼ Blackfly breeding, ▼ disease
Agricultural intensification	Malaria	Crop insecticides and ▲ vector resistance
	Venezuelan haemorrhagic fever	▲ rodent abundance, contact
Urbanization, urban crowding	Cholera	▼ sanitation, hygiene; ▲ water contamination
	Dengue	Water-collecting trash, ▲ <i>Aedes aegypti</i> mosquito breeding sites
	Cutaneous leishmaniasis	▲ proximity, sandfly vectors
Deforestation and new habitation	Malaria	▲ Breeding sites and vectors, immigration of susceptible people
	Oropouche	▲ contact, breeding of vectors
	Visceral leishmaniasis	▲ contact with sandfly vectors
Reforestation	Lyme disease	▲ tick hosts, outdoor exposure
Ocean warming	Red tide	▲ Toxic algal blooms
Elevated precipitation	Rift valley fever	▲ Pools for mosquito breeding
	Hantavirus pulmonary syndrome	▲ Rodent food, habitat, abundance

▲ increase      ▼ reduction

//

## आगे की राह

- संक्रामक रोग संचरण पैटर्न में परविरतन जलवायु परविरतन का एक प्रमुख संभावित परणिषम है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जटिल कारण संबंधों के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है और इस जानकारी को अधिक पूर्ण, बेहतर मान्य, एकीकृत, मॉडल का उपयोग करके भविष्य के प्रभावों की भविष्यवाणी पर लागू करने की आवश्यकता है।
- सरकार और नीति निर्माताओं को बाल स्वास्थ्य के लिये प्रभावी उपायों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्योंकि विरतमान समस्याएँ भविष्य में जलवायु परविरतन परदृश्यों के तहत पहले से ही कुपोषित बाल चकितिसा आबादी में कई माध्यमों से बीमारी का बोझ बढ़ा सकती है।

## स्रोत-पी.आई.बी

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/climate-change-infectious-diseases>